

May 15, 2017

Scrip Code – 532960 BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001 IBVENTURES/EQ

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex, Bandra (E). MUMBAI – 400 051

Sub: Corrigendum to the Notice of Extra-Ordinary General Meeting to be held on May 22, 2017

Dear Sir/Madam,

With reference to the Notice dated April 21, 2017 convening Extra Ordinary General Meeting of shareholders of Indiabulls Ventures Limited on May 22, 2017 at 10:00 A.M. at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi – 110 038, please find attached scanned copies of the Corrigendum to the said Notice published in Business Standard newspapers of May 13, 2017 (English and Hindi), notifying the additional information in the said notice.

Please take the above information on record.

entu

Thanking you,

Yours truly

for Indiabulls Ventures Limited

Lalit Sharma
Company Secreta

Indiabulls Ventures Limited (Formerly known as Indiabulls Securities Limited) CIN: L74999DL1995PLC069631 National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways)

NOTICE INVITING TENDER (Competitive Bidding through e-tendering mode only)

NHAI invites bids from eligible contractors for Additional facilitates for 4-lane divided Highway of km 52,250 to km 130,560 of NH-58 (Meerut Muzzaffarnagar section) in the State of Uttar Pradesh on EPC mode. Last date & time of online submission : 27.06.2017 (up to 1100 Hrs.)

For details kindly visit website: www.nhai.org or http://etenders.gov.in **BUILDING A NATION, NOT JUST ROADS** 



Regd. Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001. CIN: L74999DL1995PLC069631

Email: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240, Website: http://www.securities.indiabulls.com/

CORRIGENDUM

#### NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

This has reference to the notice dated April 21, 2017 convening Extra Ordinary General Meeting of shareholders of Indiabulls Ventures Limited on May 22, 2017 at 10.00 AM at Mapple Emerald, Rajokri, NH-8, New Delhi – 110 038 (hereinafter referred as 'Notice'), for seeking your approval for matter contained in the said Notice. The following additional information in the Notice is hereby notified through this Corrigendum to all the stakeholders/shareholders.

The following information be read along with the Explanatory Statement at page 5 (para 8 of Item No. 1) -

This is to clarify that no natural person, whether acting alone or together or through one or more juridical person owns more than 25% of shares of Tamarind Capital Pte Ltd (the "Investor"). Further, Mr. Richard Douglas and William Walmsley who are directors of Athena Holdings Limited, which is the trustee of the Clermont Trust, ultimately control the Investor by exercising the right to appoint a majority of the directors and controlling the management or policy

This corrigendum is also being placed at the website of the Company and at the websites of the Exchanges.

> By Order of the Board For Indiabulls Ventures Limited

> > 鎩

Place : Chennai

Date: 11.05.2017

Place: New Delhi Lalit Sharma Date: May 12, 2017 Company Secretary



CIN: L29130TZ1972PLC000649

Regd. Office: 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore-641005. Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700 Email: cs@shanthigears.murugappa.com, Website:www.shanthigears.com

#### NOTICE

#### (For Transfer of equity shares of the Company to the DEMAT Account of the IEPF Authority)

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfe and Refund Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016 and as amended on February 28, 2017 ("the Rules").

The Act and the Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for seven (7) consecutive years or more in the name of DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"). Complying with the requirements of the Rules, the Company has communicated to shareholders concerned individually whose shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of the Authority under the said Rules for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfe to the DEMAT Account of the IEPF Authority on its website, www.shanthigears.com Shareholders concerned are requested to refer to the said website to verify the details of their unencashed dividends and the shares liable to be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority.

Shareholders concerned may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

Shareholders concerned holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in place of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company fo the purpose of transfer of shares to the DEMAT Account of the Authority pursuant to the Rules.

The Company has already communicated individually by a letter dated 25th November, 2016 to the shareholders concerned whose equity shares are becoming liable to be transferred to the IEPF, to come forward and claim their unclaimed dividends by 3<sup>rd</sup> December, 2016. Details o such unclaimed dividends due for transfer to the IEPF were also uploaded on the website of the Company. In case the Company does not receive any communication from the shareholders concerned by  $22^{nd}$  May, 2017 (cut-off date), the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares to DEMAT Account of the Authority by the due date as per the procedure set out in the Rules. Shareholders concerned may note that no claim shal lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

For further information/request to claim the unpaid/unclaimed dividend(s), the concerns shareholders may contact the RTA of the Company at S.K.D.C Consultants Limited Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006 Tel: (0422) 4958995, 2539835-836, Fax: (0422) 2539837, Email: info@skdc-consultants.con or Shanthi Gears Limied, 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore-641005 Tel: 0422 4545745; Fax No.: 0422 4545700; Contact person: Mr. C Subramaniam, Company Secretary Email: cs@shanthigears.murugappa.com

For Shanthi Gears Limited C.Subramaniam

Date: 12th May, 2017 Company Secretary



Place: Mumbai

Date: 12th May, 2017

Sahara Asset Management Company Private Limited CIN No.: U65991MH1995PTC155207

Investment Manager to Sahara Mutual Fund. SEBI Regn No: MF/030/96/0 Corporate Office: 97-98, 9th Floor, Atlanta, Nariman Point,

Mumbai- 400 021 • Tel: 022 22047196 Email: saharamutual@saharamutual.com Website: www.saharamutual.com

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) Resignation of AMC Director: Shri Narayana Murthy Cheruvu, Director on the Board of Sahara Asset

Management Company Private Limited (AMC), has resigned effective date 8th May, 2017. Consequently the details in the Statement of Additional Information (SAI) stands modified. This notice cum addendum forms an integral part of the Statement of Additional Information and scheme related documents of Sahara Mutual Fund as may be applicable and as amended from time to time

On behalf of the Board

For Sahara Asset Management Company Private Limited

Compliance Officer

Earnings Per Share (of ₹1 each)

2.Diluted

(for continuing and discontinued operations)

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Email: info@apollosindoori.com, Website: www.apollosindoori.com

			(Rs. in lakhs)
SI. No.	Particulars	For the Year ended 31.03.17 (Audited)	For the Year ended 31.03.16 (Audited)
1	Total Turnover and other Receipts	19,572.19	18,715.84
2	Total expenditure	17,655.77	17,812.73
3	Gross Profit	1,916.42	903. 11
	a. Interest	26.62	78.18
	b. Depreciation and amortisation expenses	159.76	145.12
	c. Current Tax	706.71	211.53
	d. Previous year Tax	13 .23	
	Deferred Tax	(104,67)	108.81)
4	Net Profit After Tax	1,114.77	577.09
5	Profit available for Appreciation	1,114.77	577.09
6 7	Provision for Investment Allowance Reserve Transfer to	-	
′	1. General Reserve		_
	2. Debenture Redmn. Reserves		· -
	3. Other reserves: Investment fluctuation reserve		l <u> </u>
8	Proposed Dividend (inclusive of Corporate Tax on dividend)	_	·
0	a. Per Equity Share of Rs.10/- each (No. of Share 1300200)	-	-
9	Add/Less: Balance from previous year	1,773.12	1,729.23
10	Balance carried forward	2 840 94	1 773 12

For and on Behalf of the Board G.Venkatraman Director

## Info Edge (India) Limited

Particulars of proposed Rights/Bonus issues/Con. Debenture Issue

CIN: L74899DL1995PLC068021 Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095 Web: http://www.infoedge.in/; email: investors@naukri.com

#### NOTICE

#### Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6 (3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017 ("Rules"), Notice is hereby given to the shareholders of Info Edge (India) Limited ("the Company") as under -

As per said Rules, if a shareholder does not claim the dividend amount for a consecutive period of seven years or more, then the shares held by him/her shall be transferred to the Investors Education and Protection Fund Authority ('IEPFA') constituted in accordance with the Rules. Accordingly, shares of all those shareholders, who haven't claimed he dividends for the last seven consecutive years or more, are now due for transfer to IEPFA.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPFA under the said Rules for taking appropriate action(s). The details of such shareholders are also posted on the website of the Company i.e. www. infoedge.in. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend at the earliest, otherwise the shares shall be transferred to the IEPFA after May 31, 2017.

The concerned shareholders, holding shares in physical form or whose shares are liable to be transferred to IEPFA, may also take note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of the original share certificate (s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPFA as per Rules and upon such issue, the original share certificate will stand automatically cancelled and will have no effect whatsoever. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been transferred or the shares which are being transferred by the Company to IEPFA including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by  $the shareholders from IEPFA by following the procedure given on its website i.e.\ http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html.$ Further in order to claim the unclaimed dividend lying with the Company or in case you need any information/clarification, please write to or contact our RTA: M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., 44 Community Center, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase 1, Near PVR, Naraina, New Delhi - 110028, Tel: 011-41410592, e-mail:

Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio No. or DP and Client ID, 3. Name of Shareholder, 4. Contact No., 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

For Info Edge (India) Ltd.

Date: May 11, 2017 (MM Jain) VP-Secretarial & Company Secretary



Regd. Off.: 27-BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051.

Branch Office: Samsung Building, Gr Floor, 159-A CST Road, Vinay Bhavya Complex, Kalina, Santacruz (East) Mumbai-98.

## **POSSESSION NOTICE**

(FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

The undersigned being the Authorized Officer of the Kotak Mahindra Bank Ltd., under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest Enforcement ) Rules, 2002 issued a demand notice dated 25-Feb-17 calling upon the Borrowers Rupesh Ashok Patil AND Co-Borrower Mrs. Kalpana Rupesh Patil to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,49,136.23/- (Rupees Nine Lakh Forty Nine Thousand One Hundred And Thirty Six And Twenty Three Paisa Only) as on 25-Feb-17, within 60 days from the date of the receipt of the notice.

The Borrowers and others mentioned hereinabove having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, Co-Borrower as mortgagor mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him /her under Section 13(4) of said Act read with Rule 8 of the said Rules on this the 9th day of May of the 2017.

The Borrowers and the partners/guarantors/mortgagor mentioned hereinabove in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Kotak Mahindra Bank Ltd., for an amount of Rs. 9.49.136.23/- (Rupees Nine Lakh Forty Nine Thousand One Hundred And Thirty Six And Twenty Three Paisa Only) as on 25-Feb-17, along with future interest at the contractual rate and substitute interest, incidental expenses,

costs and charges etc. till the date of full repayment and / or realization The Borrowers' and others mentioned hereinabove attention is invited to provisions of sub section 8 of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secure assets.

#### DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

"All that part and parcel of immovable property consisting of Building No. A-30, Flat No. 04 admeasuring 470 Sq. Ft., on Ground Floor in the building known as "Krishna Niketan Building" which is constructed on land property situated at Sector- 04, Survey No. 133, Revenue Village - Krishna Nagar, Sarawali Post, Boisar (West), District- Palghar-401501 which is within the local limits of Palghar and within Registration Sub District of Taluka Boisar, District Palghar State Maharashtra, owned and possessed by Rupesh Ashok Patil.

Date: 09/05/2017 Authorised Officer, Place: Mumbai Kotak Mahindra Bank Ltd.,



#### **GOVERNMENT OF TAMILNADU** WATER RESOURCES DEPARTMENT - PUBLIC WORKS DEPARTMENT **DAM REHABILITATION AND IMPROVEMENT PROJECT (DRIP)**

INVITATIONS FOR BIDS (IFB) - NATIONAL COMPETITIVE BIDDING

Bid Invitation No.: 02SE/TBC/2017-18 / Date: 10.05.2017.

1. The Government of India has received a credit from the International Development Association and a loan from th International Bank for Reconstruction & Development towards the cost of Dam Rehabilitation and Improvements Project (DRIP PHASE –II) and intends to apply a part of the funds to cover eligible payments under the contracts for construction c works as detailed below. Bidding is open to all bidders from eligible source countries as defined in the IBRD Guidelines fo Procurement. Bidders from India should, however, be registered with the Government of Tamil Nadu (First Class Contractor can only apply) or other State Governments/Government of India, or State/Central Government Undertakings Bidders are advised to note the minimum qualification criteria specified in Clause 4 of the Instructions to Bidders to qualify for the award of the contract.

For and on behalf of Governor of Tamil Nadu the Superintending Engineer, PWD/WRD, Thambaraparani Basin Circle Tirunelyeli - 627 002 invites bids for the construction of works detailed in the table. The bidders may submit bid for the

3. Bidding documents three sets (original one and two additional copies) may be purchased from the office of the Superintending Engineer, PWD/WRD, Thambaraparani Basin Circle, Tirunelveli as noted in para 7 (Table), for a non refundable fee as indicated, in the form of Chellan on any Scheduled bank in favour of the Executive Enginee Thambraparani Basin Division, Tirunelyeli from 15.05.2017 to 13.06.2017, Interested bidders may obtain furthe information at the same address. Bidding documents requested by mail will be despatched by registered/speed post or payment of an extra amount of Rs.500/- for each Bid Document. The Superintending Engineer, PWD/WRO Thambaraparani Basin Circle, Tirunelveli – 627 002 will not be held responsible for the postal delay if any, in the delivery o the documents or non-receipt of the same. Bidding documents may also be downloaded from the websit www.tenders.tn.gov.in at free of cost. In such cases the bidder would be responsible for ensuring that any addendur

available in website is also downloaded and incorporated. 4. Bids must be accompanied by security of the amount specified for the work in the table below, drawn in favour of respective Executive Engineer as noted in the Tabular Column. Bid security will have to be in any one of the forms as specifie in the bidding document and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the bid.

5. Bids must be delivered to the Superintending Engineer, PWD/WRD, Thambaraparani Basin Circle, Tirunelveli 627 002 on or before 12.00 hours (IST) on the date 14.06.2017 and will be opened on the same day at 12.30 hours(IST noted in the tabular column, in the presence of the bidders who wish to attend. If the office happens to be closed on the date o receipt of the bids as specified, the bids will be received and opened on the next working day at the same time and venue.

6. A pre bid meeting will be held on 30.05.2017 at 11.00 Hours (IST) at office of the Superintending Engineer, PWD/WRD, Thambaraparani Basin Circle. Tirunelyeli to clarify the issues and to answer questions on any matter that may be raised a that stage as stated in Clause 9.2 of 'Instructions to Bidders' of the bidding documents.

—	TABLE							
SI No	Name of Work	Approximate Value of work (Rs. In Lakhs)	Bid security (Rs. In Lakhs)	Cost of document (Rs.)	Period of Completion			
1	2	3	4	5	6			
1	Providing Upstream face treatment and reaming the Drainage shafts and drainage holes in Manimuthar Dam of WRD in Tirunelveli District of Tamilnadu under Phase I DRIP	937.75	18.76	15000+ 750 (VAT)	24 Months (Including rainy season)			

Tamil Nadu, India. Superintending Engineer, PWD/WRO, Phone No: 0462 - 2574232. Email: setbctvl@gmail.com Fax No: 0462 – 2574232 DIPR/2071/Tender/2017

Thambaraparani Basin Circle, Tirunelveil - 627 002.

#### Kriti Industries (India) Ltd. **Kasta**®

CIN No: L25206MP1990PLC005732



Regd. Office: Mehta Chambers, 34 Siyaganj, Indore-452 007 (M.P.) Phone: 0731-2719100/26, E-mail: cs@kritiindia.com, Website: kiil.kritiindia.com

**Extract from Statement of Standalone and Consolidated Audited** Financial Results for the Quarter/ Year Ended 31st March, 2017

₹ in Lacs (Except Farnings Per Share STANDALONE CONSOLIDATED Quarte Previous ended ended **Particulars** ended Quarter ended Quarter ended ended ended 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016 1.03.2017 31.03.2016 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Reviewed) Total income from operations (net) 8081.44 8905.47 8720.74 36471.89 46256.07 38755.76 47977.08 Net Profit / (Loss) for the period (before tax exceptional and for Extraordinary items) 1266.37 Net Profit / (Loss) for the period before tax 126.23 366.77 1324.29 1931.65 1266.37 1832.87 204.30 (after exceptional and /or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period after tax 60.34 177.18 887.36 1169.08 833.78 1075.61 (after exceptional and /or Extraordinary items 145.77 Equity Share Capital (Face value of ₹1 each) 496.04 496.04 496.04 496.04 496.04 496.04 496.04 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of 6546.54 5752.79 6225.27 5485.06

Notes The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Year ended Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of Audited financial result for quarterly and year ended 31.03.2017 are also available on the website of BSE at www.bseindia.com and also on the company website at kiil.kritiindia.com. The above financial results were reviewed by the Audit committee on 10.05.2017 and approved by the Board of Directors

0.36

0.12

0.29

0.29

1.79

1.79

2.36

at their meeting held on 11.05.2017. The Board of Directors has recommended dividend of ₹0.15 per share (15%) for the financial year 2016-17 subject to

approval of members in Annual General Meeting For Kriti Industries (India) Ltd. The previous period/year figures are regrouped / rearranged wherever necessary.

(Shiv Singh Mehta) Dated: 11.05.2017 Place : INDORE

# Huhtamaki-PPL

(Formerly The Paper Products Ltd.)

Huhtamaki PPL Ltd. (Formerly known as "The Paper Products Ltd.") Read Office: 12A-06. B-Wing, 13th Floor, Parinee Crescenzo, C-38/39, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-51

Central Headquarters: L. B. Shastri Marg, Majiwade, Thane - 400 601

CIN: L21011MH1950FLC145537, Phone No.: (022) 2653 1320, Fax No.: (022) 2653 1310 STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31 MARCH 2017

(₹ in lace)

2.17

1.68

			(₹ in lac					
		Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended			
Sr.	Particulars	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016	31.12.201			
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited			
			(Refer note E)	(Refer note E)	(Refer note E			
	PART I							
1	Revenue from Operations							
	<ul> <li>a) Sales / Income from Operations (inclusive of excise duty)</li> </ul>	55,595	56,368	56,265	233,32			
	b) Other Operating Revenue	623	534	560	2,36			
	Total Revenue from Operations	56,218	56,902	56.825	235,69			
2	Other Income	551	474	391	1,73			
3	Total Income	56,769	57,376	57,216	237,42			
4	Expenses	00,700	07,070	07,210	207,42			
•	a) Cost of Materials Consumed	34,496	34,862	33,953	147,28			
	b) Changes in Inventories of Finished	01,100	01,002	00,000	117,20			
	Goods and Work-in-Process	(45)	632	(143)	(575			
	c) Excise Duty	5,034	4,650	4,264	17,91			
	d) Employee Benefits Expense	4,857	4,740	4,510	19,46			
	e) Finance Costs	853	868	1,064	3,69			
	f) Depreciation and Amortisation Expense	2,063	2,137	2,279	8,93			
	g) Other Expenses	6,441	6,747	6,388	27,08			
	h) Foreign Exchange Loss / (Gain)	140	1	(60)	3			
	Total Expenses	53,839	54,637	52,255	223,84			
5	Profit from Operations before Exceptional							
	Items and Tax (3-4)	2,930	2,739	4,961	13,58			
6	Exceptional Expenses (Refer Note G)	-	255	-	25			
7	Profit from Operations before Tax (5-6)	2,930	2,484	4,961	13,32			
8	Tax expense							
	Provision for - Current taxes (Refer Note H)	1,269	1,436	1,711	5,97			
	- Deferred taxes	29	(122)	(196)	(798			
9	Profit for the period (7-8)	1,632	1,170	3,446	8,14			
10	Other Comprehensive Income (OCI) (Net of Tax) (Refer Note F)							
	Other Comprehensive Income / (Expenses) not to be reclassified to Profit and Loss							
	Re-measurement gains / (losses) on defined							
	benefit plans	61	(16)	(16)	(63			
	Income Tax Effect	(21)	6	6	2			
	OCI (Net of Tax)	40	(10)	(10)	(41			
11	Total Comprehensive Income (9+10)	1,672	1,160	3,436	8,10			
12	Paid Up Share Capital - Equity Face Value ₹ 2 each	1,454	1 454	1,454	1,45			
13	Earnings per share of ₹ 2 each (not annualised)	1,454	1,454	1,434	1,45			
13	Basic & Diluted EPS (Including Exceptional Items)	2.16	1.55	4.56	10.7			
	Basic & Diluted EPS (Excluding Exceptional Items)		1.89	4.56	11.1			
Not	, , ,	2.10	1.09	4.30	11.1			

- A. The Company's business segment is primarily consumer packaging and all other activities of the Company are incidental to this business segment.
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at it's meeting held on 12 May 2017.
- The Statutory Auditors have carried out a limited review of the results for the quarter ended March 31, 2017.
- D. The Company follows January to December as its financial year and has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act. 2013 read with relevant rules issued thereunder. from January 1, 2017. Therefore, the financial results for the guarter ended March 31, 2017 together with the results of all previous periods reported, have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 "Interim Financial Reporting" and other accounting principles generally accepted in India. The date of transition to Ind AS is January 1, 2016. The impact of transition has been accounted for in opening reserves and the comparative period results have been restated accordingly The opening balance sheet as at January 1, 2016 and the results for the subsequent periods would get finalized along with the annual financial statements for the year ended December 31, 2017.
- The Ind AS financial results and other financial information as of and for the year ended December 31, 2016 and the three months ended March 31, 2016 and December 31, 2016, have been compiled by the management exercising necessary due diligence to ensure that the financial results provide a true and fair view of its affairs. This information has not been subject to a limited review or audit.
- Other Comprehensive Income comprises of items of income and expense (net of tax) that are not recognised in profit or loss as required by Ind AS.
- Exceptional Item for the quarter and year ended December 31, 2016 represents Stamp duty payable on account of merger and transfer fees payable for transfer of Land from erstwhile Positive Packaging Industries Limited to Huhtamaki PPL Limited.
- Provision for current tax for the quarter and year ended December 31, 2016 includes an amount of ₹ 110 lacs being provision made for earlier periods.
- Reconciliation of Net Profit as reported under generally accepted accounting principles (Previous GAAP) and as per Ind AS is given below:-

Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	
	31.12.2016	31.03.2016	31.12.2016	
Net Profit under Previous Indian GAAP	1,273	3,495	8,515	
Amortization of Goodwill reversed as per Ind AS	36	35	142	
Reclassification of net acturial loss on defined benefit obligation to other comprehensive income	16	16	63	
Cost in respect of Employee Stock Options granted by parent Company to employees of the Company	(31)	(52)	(279)	
Amortisation of ancillary cost of borrowings	(9)	(9)	(36)	
MTM Gain / (Loss) on Forward contracts	(17)	29	7	
Loss on fair valuation of financial liability	(85)	(78)	(324)	
Tax effect on above adjustments	(13)	10	61	
Net Profit under Ind AS	1,170	3,446	8,149	
Other Comprehensive Income as per Ind AS	(10)	(10)	(41)	
Total Comprehensive Income as per Ind AS	1,160	3,436	8,108	

Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified where necessary to conform to current period's presentation.

For Huhtamaki PPL Ltd.

Mumbai, 12th May 2017 Visit us at our website: www.ppl.huhtamaki.com Suresh Gupta - Chairman

日記り

Kharsia town, Chhattisgarh.



#### **PNB GILTS LTD**

CIN: L74899DL1996PLC077120 Regd. Office: 5, Sansad Marg, New Delhi -110001

Website: www.pnbgilts.com, E-mail: pnbgilts@pnbgilts.com Tel: 011-23325759, 23325779, Fax - 011-23325751, 23325763

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

				,
PARTICULARS	3 MONTHS ENDED 31.03.2017 (AUDITED)	YEAR ENDED 31.03.2017 (AUDITED)	3 MONTHS ENDED 31.03.2016 (AUDITED)	YEAR ENDED 31.03.2016 (AUDITED)
Total Income from operations	6068.97	50031.72	7881.10	34322.40
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1983.66	25654.11	542.88	5147.23
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1983.66	25654.11	542.88	5147.23
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1178.02	16717.38	363.06	3449.65
Equity Share capital	18001.01	18001.01	18001.01	18001.01
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	71883.99 (as at 31.03.2017)			55166.62 (as at 31.03.2016)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
Basic:	0.65	9.29	0.20	1.92
Diluted:	0.65	9.29	0.20	1.92
Note:	•			

- l. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of the Quarterly and Yearly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website www.pnbgilts.com. Statement of sources and application of funds etc. with notes are also available on
- 2. The figures for the quarter ended March 31, 2017 and March 31, 2016 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the quarter ended December 31, 2016 and December 31, 2015 respectively.
- 3. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 12, 2017
- 4. Information relating to Total comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet applicable to the company.

For and on behalf of Board Date: May 12, 2017 (S.K.Dubey) **Managing Director** Place : New Delhi

# insecticides (INDIA) LIMITED

रजि. कार्यालयः ४०१-४०२, लुसा टावर, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-११००३३ सिनः L65991L1996PLC083909 वेबसाइटः www.insecticidesindia.com टेलीफोन नं.- 011-27679700-05 ई-मेल: investor@insecticidesindia.com सूचना

सेबी के लागू विनियम (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)विनियम, 2015 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कंपनी निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन 27 मई, 2017, शनिवार को दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें *अन्य विषयों के साथ—साथ* 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही व वार्षिक ऑडिट वित्तीय परिणामों के अनुमोदित लाभांश एवं स्वीकृति और कार्यावली के अनुसार अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com पर भी उपलब्ध है तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक , रक्सचेंज www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते इन्सेक्टीसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड हस्ता / दिनांक : 13.05.2017 (संदीप कुमार) स्थान : दिल्ली कंपनी सचिद



वर्ष 2017-2020 के दौरान सी पी सी एल-मणली में सी आई एस एफ के लिए परिवहन सेवाएँ लोंड प्रारंभ तिथि : 12.05.2017

पूर्व बोली बैठक : 22.05.2017 को 10.00 बजे पूर्वाहन पुस्तति की तिथि : 14.06.2017 को 11.00 बजे पूर्वाहन र्ड निविदा वेबसाइट : https://cpcle तंपर्क दूरमाष संख्या : 044-2594 4268/4222

ई मेल आई डी: : cselvam@cpcl.co.in/



Place: Noida

Date: 12.05.2017

Date: May 11, 2017

Place: Noida

#### ROTO PUMPS LTD.

Regd. Off.: "Roto House", Noida Special Economic Zone, Noida - 201305 CIN: L28991UP1975PLC004152, Website: www.rotopumps.com, Tel.: 0120-2567902-05, Fax: 0120-2567911, Email: investors@rotopumps.com

Extract of standalone and consolidated audited financial results for the fourth quarter and financial year ended 31st March, 2017

	Standalone				Consolidated	
	Quarter ended		Year Ended		Year Ended	Year Ended
Particulars	31-03-2017 (Audited)	31-03-2016 (Audited)	31-03-2017 (Audited)	31-03-2016 (Audited)	31-03-2017 (Audited)	31-03-2016 (Audited)
Total income from operations	3141.80	2375.00	9493.71	9497.95	10087.66	9655.74
Net Profit/(loss) from ordinary activities after tax	333.49	95.82	658.89	427.78	491.64	64.44
Paid-up equity share capital (face value₹ 2 per share)	309.08	309.08	309.08	309.08	309.08	309.08
Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet as at 31-03-2017	-	-	5999.55	5340.66	5262.40	4772.72
Earnings per share - Basic and diluted (not annualised) in ₹	2.16	0.62	4.26	2.77	3.18	0.42

Note: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the Stock Exchange's website-**www.bseindia.com** and website of the Company www.rotopumps.com

By Order of the Board

Harish Chandra Gupta Chairman & Managing Director DIN: 00334405

एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044

#### वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली प्राधिकरण-।, दिल्ली

4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

केनरा बैंक बनाम मैसर्स इंडियन डेल्को प्राइवेट लिमिटेड

मेरे दिनांक 10.04.2017 के आदेश के अनुसार संबंधित वसूली प्रमाणपत्रों में नीचे उल्लिखित सम्पत्ति **दिनांक 22.06.2017** को सार्वजनिक ई-नीलामी के जरिए बिक्री की जाएगी। नीलामी बिक्री वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के जिएए "ऑनलाइन ई-ऑक्शनिंग" होगी। नीलामी की तारीख एवं समय : 22.06.2017 को अपराहन 03.00 बजे से अपराहन 04.00 बजे के बीच (अपराहन 04.00 बजे के उपरांत

आवश्यकतानुसार 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ) सम्पत्ति का विवरण क्र.सं. सम्पत्ति का विवरण आरक्षित मूल्य ईएमडी नीलामी की तारीख एवं समय बी-II/45, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल दिनांक 22.06.2017 को अपराहन 3.00 बजे से अपराहन रु. 2916 रु. 29.16

#### नियम एवं शर्ते

लाख मात्र

4.00 बजे के बीच (अपराहन 4.00 बजे के उपरांत 5 मिनट

के विस्तार के साथ)

1) नीलामी बिक्री वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के जरिए "ऑनलाइन ई-ऑक्शनिंग" होगी। 2) ईएमडी वसूली अधिकारी-1, डीआरटी-1, दिल्ली ए/सी आर.सी. सं. 86/13 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के जिए जमा की जानी चाहिए साथ में पहचान पत्र की रव-सत्यापित प्रतियां (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें भविष्य के पत्राचार के लिए पता का उल्लेख होना चाहिए तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में **दिनांक 20.06.2017 को अपराहन 5.00 बजे से पहले** पहुंच जाना चाहिए। उसके उपरांत प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। 3) ईएमडी वाले लिफाफे के आवरण पर **"आर. सी. सं. 86/13"** के साथ प्रेषक का विवरण यानी पता. ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि का उल्लेख किया होना चाहिए। 4) सम्पत्ति की बिक्री "**जैसे है जहां है**" के आधार पर की जाएगी। 5) बोलीदादाताओं को अपर्न बोलियां जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://drt.auctiontiger.net देखने तथा/अथवा श्री मनु पाण्डे, मुख्य प्रबंधक केनरा बैंक, एआरएम शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली से दूरभाष सं. 011-28751655, 28751723, **मोबाइलः** 9560062365 पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। 6) प्रत्याशित बोलीदादाताओं को पोर्टल पर स्वयं का पंजीयन करना होग तथा मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, बी-704-705, बॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज अहमदाबाद, गुजरात-380006 से उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य यूजर आईडी/पासर्वेड अग्रिम प्राप्त करना होगा। 7) प्रत्याशित बोलीदादागण मैंसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, बी-704-705, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज अहमदाबाद, गुजरात-380006, सम्पर्क व्यक्ति : श्री विशाल तिवारी, मोबाइल नं. 08140094365, श्री रविन्द्र सरोय मोबाइल नं. 07600710758, इंमेल: support@abcprocure.com से ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 8) केवल वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड रखने वाले नथा डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के जरिए ईएमडी के भुगतान की पुष्टी करने वाले बोलीदातागण ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे। 9) इच्छुक बोलीदादागण जिन्होंने अपनी बोलियां आएक्षित मत्य से कम नहीं दिनांक 20.06.2017 को अपराष्ट्रन 5.00 बजे तक जमा किए हैं वे दिनांक 22.06.2017 को अपराहन 03.00 बजे से अपराहन 04.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे। नीलामी के बंद होने के समय के अंतिग 5 मिनट में बोली लगाए जाने की स्थिति में, बंद होने का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जाएगा। 10) बोलीदाता अपने प्रस्ताव को रु. 50,000/ (रु. पद्यास हजार मात्र) के गुणक में सुधार कर सकते हैं। 11) सफल/सर्वोच्च बोलीदाता को ई-नीलामी के समाप्त होने के उपरांत 24 घंटे के अंदर एवं बयाना राशि (ईएमडी) के समायोजन के उपरांत **वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली, ए/सी आर.सी. सं. 86/2013** के पक्ष में पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बिक्री रकम की 25% राशि तैयार रखनी होगी तथा वसूली अधिकारी के कार्यालय में उसे भेजना/जमा करना होगा कि उसे ई-नीलामी के बंद होने से 3 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। 12) सफल/सर्वोच्च बोलीदाता को यसूली अधिकारी-I, डीआस्टी-I, दिल्ली आर.सी. ए/सी आर.सी. सं. 86/2013 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में विक्री रकम की शेष 75% राशि सम्पत्ति की विक्री की तारीख से 15 दिनों के अंदर अथवा उससे पहले, संबंधित दिन को छोड़कर, वसली अधिकारी-I, डीआरटी-I के पास जमा करना होगा। अगर 15वां दिन रविवार अथवा छुट्टी का दिन पड़ता है, तो 15वें दिन के उपरांत प्रथम कार्यालयीन दिवस को पंजीयक, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में 2% की दर से रु. 1,000/- तक तथा सेंबंधित रकम के 1,000/- से अधिक रहने पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ जमा करना होगा (शेष 75% की रकम डाक द्वारा जमा किए जाने पर उसे ऊपरोक्त अनुसार वसुली अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)। 13) असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया समाप्त होने के तरंत बाद सीधे वसली अधिकारी ुडीआरटी-|, दिल्ली से ईएमडी वापस लेना होगा। 14) वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने तथा नीलामी को स्थगित अथवा रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। 15) सीएचएफआई/सीएच बैंक को दस्ती, पंजीकृत पावती डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीडी के जरिए बिक्री की घोषणा सेवित करने तथा सम्पत्ति के विशिष्ट हिस्से पर उसे विपकाने तथा उनके निकटवर्ती इलाके में इम बजा कर घोषणा करने तथा उसकी एक प्रतिलिपि न्यायाधिकरण के सूचना पट्ट पर चिपकाने का निर्देश दिया जाता है। 16) बिक्री की घोषणा/आदेश समाचारपत्रों में अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा में, उस क्षेत्र के पर्याप्त प्रसारण वाले समाचार पत्रों में, भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।17) सीएचएफआई/सी बैंक को समाचारपत्र में विज्ञाप के प्रकाशन की पुष्टी करने तथा उसकी छाया प्रति फाइल में प्रवेशित करने का निर्वेश दिया जाता है।

यह मामला बिक्री घोषणा की सेवा का हलफनामा दायर करने के लिए तथा दिनांक 04.05.2017 को अगली कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध है। (अलोक कुमार दीक्षित), वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-।, दिल्ली

#### Info Edge (India) Limited

CIN: L74899DL1995PLC068021 Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095 Web: http://www.infoedge.in/; email: investors@naukri.com

#### NOTICE

#### Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6 (3) of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017 ("Rules"), Notice is hereby given to the shareholders of Info Edge (India) Limited ("the Company") as under -

As per said Rules, if a shareholder does not claim the dividend amount for a consecutive period of seven years or

more, then the shares held by him/her shall be transferred to the Investors Education and Protection Fund Authority ('IEPFA') constituted in accordance with the Rules. Accordingly, shares of all those shareholders, who haven't claimed he dividends for the last seven consecutive years or more, are now due for transfer to IEPFA Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually to the

concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPFA under the said Rules for taking appropriate action(s). The details of such shareholders are also posted on the website of the Company i.e. www. infoedge.in. The concerned shareholders are thus requested to claim the unclaimed dividend at the earliest, otherwise the shares shall be transferred to the IEPFA after May 31, 2017. The concerned shareholders, holding shares in physical form or whose shares are liable to be transferred to IEPFA.

may also take note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of the original share certificate (s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPFA as per Rules and upon such issue, the original share certificate will stand automatically cancelled and will have no effect whatsoever. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

Please take note that unclaimed or unpaid dividend which have already been transferred or the shares which are being transferred by the Company to IEPFA including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPFA by following the procedure given on its website i.e. http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html. Further in order to claim the unclaimed dividend lying with the Company or in case you need any information/clarification, please write to or contact our RTA: M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., 44 Community Center, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase 1, Near PVR, Naraina, New Delhi - 110028, Tel: 011-41410592, e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in.

Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio No. or DP and Client ID, 3. Name of Shareholder, 4. Contact No., 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

For Info Edge (India) Ltd.

(MM Jain)
VP-Secretarial & Company Secretary



## HPL ELECTRIC & POWER LIMITED gistered Office: 1/21, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 : +91-11-23234411 Fax: +91-11-23232639 E-mail: hpl@hplindia.com

#### **Notice**

Pursuant to Regulation 29 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 22<sup>nd</sup> May, 2017, inter alia to consider and approve the standalone and consolidated Audited financial results of the company for the quarter and financial year ended 31st March, 2017.

For HPL Electric & Power Limited

Place: New Delhi Date: 12.05.2017

(Vivek Kumar) **Company Secretary** 



#### इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड CIN: L74999DL1995PLC069631

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 फोन:0124-6681199 फैक्स: 0124-6681240 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com वेबसाईट: http://www.securities.indiabulls.com/

#### शृध्दिपत्र असाधारण आम बैठक की सूचना

इसका संदर्भ अप्रैल 21, 2017 की तिथि की सूचना से है जो कि इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड के अशंधारकों की असाधारण आम सभा को बुलाने से सम्बधित है जो उक्त सूचना में दिए गये विषय पर आपकी अनुमति प्राप्त करने के लिए मई 22, 2017 को सुबह 10.00 बजे मेप्पल एमराल्ड, रजोकरी, एनएच ८, नई दिल्ली - 110038 पर आयोजित की जा रही है । इस शृध्दिपत्र के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी सभी हिस्सेधारों / अंशधारकों को दी जा रही है ।

निम्नलिखित जानकारी सचना के पेज नं. 5 पर मद संख्या 1 के व्याख्यात्मक विवरण के अनुछेद 8 के साथ पढी जाए ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति, अकेले या किसी एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के साथ मिलकर टैमारिंड कैपिटल पीटीई लि. (निवेशक) के 25% से अधिक अंश का स्वामी नहीं है । आगे, श्री. रिचर्ड डोगलास एवं श्री. विलियम वामस्ले जो कि अथेना होल्डींग्स लिमिटेड़, जो क्लेरमोन्ट ट्रस्ट की ट्रस्टी है, के निदेशक हैं, वो निवेशक के निति निर्धारण निर्णय या प्रबन्धन नियंत्रण से अथवा उसके अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार के कारण निवेशक को अंतिम रूप से नियंत्रित करते हैं।

यह शुध्दिपत्र कंपनी तथा स्टोक एक्सचेंज की वेबसाईट पर उपलब्ध किया जा रहा है । बोर्ड की आजानसार

कृते इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड सही/-

यूँनिट नं. 3, 4, 5, 6 व 11-ए, प्रथम मंजिल, सुपर क्षेत्रफल 6356 वर्गफीट, ब्लॉक ए, यूनिट नं. 8 व 9 तेल मंजिल, ब्लॉक-ए, सपर क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट, यनिट नं, 17 व 18, दसरी मंजिल, ब्लॉक डी सुपर क्षेत्रफल 1789.00 वर्गफीट, प्लाट नं. 21 स्थित, सेक्टर नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र . 2013011, चर्तुःसीमा : उत्तर : प्लाट नं. 9, पश्चिम : एप्रोच रोड़, पूर्व : खाली प्लाट, दक्षिण : एप्रोच रोड़ जबकि नोटीस दि 24 अप्रैल 2017 आपके मल रहवासी / व्यवसाय संचालन / व्यक्तिगत कार्यों व पते पर आपकी प्राप्ति हेतु भेजा गया था, जो गैर प्राप्त हो गया अतः हमें यह सूचना प्रकाशित करवाने को बाध्य होना पडा। एतदद्वारा आपको 60 दिन के अंदर उक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (2 अंतर्गत उक्त राशि का भुगतान कर देवें, अन्यथा TCFSL द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) वर्णित किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। आपको यह भी अवगत कराया जाता है वि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप उपरोक्त संपत्तियों का किसी प्रकार से विक्रय य हस्ता. प्राधिकृत अधिकारी

Tender ID: 2017\_BBJC\_202241\_1). Sealed e-Bids (Two-Cover System) can be uploaded in e-procurement portal up to 18:00 hrs. on or before 27.05.2017 and opening of e-Tenders (Techno-Commercial) will be on 29.05.2017 at 11:00 rs. "Corrigendum", if any, would appear only on the BBJ's website or -Procurement portal and not to be published in any newspaper.

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP

CONSTRUCTION CO. LIMITED (BBJ)
(A Govt. of India Enterprise)

Regd. Off.: 27, Rajendra Nath Mukherjee Road, Kolkata - 700 001

Phone No. (033) 2248-5841-44; Fax: (033) 2210-3961

E-mail: info@bbjconst.com; Website:www.bbjconst.com

-Tenders are invited, <u>UNDER TWO-BID SYSTEM</u>, from reputed

Agency/fabricator for fabrication, sand blasting, metalising, painting, tria assembling, dismantling, stacking, transporting etc. and delivery to site near

ender No.: eNIT/DGM(P-V)/FABRICATION/IRCON-KHARSIA/2147/37

EMD: Rs.2,50,000/-; Cost of Tender Papers (non-refundable):Rs.1.000/

ender documents may be downloaded from www.bbjconst.con

**NOTICE INVITING E-TENDER** 



CIN: L11101AS1959GOI001148 बोली हेतु आमंत्रण

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली

। ऑयल इंडिया लिमिटेड नीचे उल्लेखित मदों के लिए अपनी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://etender.srm.oilindia.in/irj/portal के जरिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां

ई-निविदा सं.	बोली बंद होने/ खुलने की तिथि	मद
एसडीआई4603पी18	29.06.2017	फायर फाइटिंग सिस्टम - 01 अदद
एसडीआई4647पी18	15.06.2017	प्रिंटर्स - 84 अदद
एसडीआई4648पी18	15.06.2017	प्रिंटर्स - 33 अदद
एसएसआई4497पी18	29.06.2017	कैटफ्लॉक - 120000 किग्रा
एसएसआई4425पी18	15.06.2017	केबल - 24000 मीटर

निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) : रु. 1,000.00 **(सिर्फ ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए)**, बोली बंद होने/खुलने का समय : **(11 बजे) भामास/(14 बजे) भामास;** दस्तावेज बिक्री की अवधि : **बोली बंद होने की तिथि से एक सप्ताह पहले तक।** सम्पूर्ण बोली दस्तावेज एवं बोली दस्तावेज क्रय करने, ई-निविदाओं में भाग लेने के लिए विवरण ऑयल की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://etender.srm.oilindia.in/irj/portal के साथ ऑयल की वेबसाइट www.oil-

टिप्पणी : निविदाओं से संबंधित सभी संयोजनी, संशोधनी, समय का विस्तारीकरण इत्यादि सिर्फ उपरोक्त वेबसाइट तथा ई-पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा तथा समाचारपत्रों में अलग से कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। नवीनतम जानकारी हासिल करने के लिए बोलीदातागण उपरोक्त वेबसाइट एवं ई-पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें।



india.com पर उपलब्ध है।

# एसजेवीएन लिमिटेड (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रवेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) SJVN Limited (A Johr Vonture of Govt. of Indle & Govt. of H.P.) A Mini Ratna & Schedule 'A' PSU CIN-L40101HP1988 GOI 008409

नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर रटेशन निविदा आमंत्रण सूचना (घरेल् प्रतिस्पर्धात्मक बोली)

एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से एतद्वारा "पैकेज(पी)—एनजेएचपीएस—178(ओ एवं एम)/2017 — (क) "एक नग 25 एमवीए, 400 केवी/22केवी थी फेज, वाईएनवाईएन 0, 50 हर्टज, ओएनएएन कूल्ड, आउटडोर टाइप स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर (टैप चेन्जर रहित) की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, असेम्बली, प्रेषण से पूर्व विनिर्माता के वर्क्स में परीक्षण, आपूर्ति, परिवहन, बीमा, प्रेषण, परियोजना स्थल झाकड़ी में सुपुर्दगी, स्थल पर अनलोडिंग एवं परिस्राण, उत्थापन, परीक्षण और प्रवातनारंग का निरीक्षण और (ख) नाथपा झाकड़ी जल विद्युत पाररकाण, उत्थापन, परावाण ओर प्रवालनारम का ानरात्रण ओर (ख) नाथपा झाकड़ा जला वाबुत केन्द्र के लिए 25 एमवीए, 400 केवी / 22केवी स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर की संरक्षण रकीम की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रिलेज तथा रिले असेम्बलजी हेतु संरक्षण पैनल की डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रीकेशन संरक्षण पैनल में सभी आवश्यक एक्सेसरीज तथा वायरिंग सहित, योजना और ड्राइंग्स तैयार क्रना, विनिर्माण, विनिर्माता के वर्क्स में रिले का परीक्षण, आपूर्ति, परिवहन, बीमा, प्रेषण, परियोजना स्थल झाकड़ी में सुपुर्दगी, स्थल पर अनलोडिंग एवं परिरक्षण, उत्थापन, परीक्षण और प्रचालनारंग का निरीक्षण हेतु ई-टॅडरिंग के माध्यम से दो भाग

।णाली के अघीन खुली प्रेस निविदा इन्क्वायरीज आमंत्रित हैं : कृपया आगे विस्तृत विवरण एवं बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जानने के लिए दिनांक **15.05.2017** की प्रमावी तिथि से वेबसाइट www.sjvn.nic.in अथवा www.tenders.gov.in अथवा www.eprocure.gov.in देखें। बोली समापन तिथि (भरी गई बोली अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि और समय) 13.06.2017 के 13.00 बजे (आईएसटी) है। बोली ई—टेंडरिंग के माध्यम रें https://sjvn.abcprocure.com पर प्रस्तुत की जानी है।

> प्रापण एवं संविदा विभाग एनजेएचपीएस, एसजेवीएन लिमिटेड, झाकड़ी

बोलीदाताओं के मध्य व्यापक प्रचार और जागरूकता के लिए, यह सूचित किया जाता है कि रू. केवल 20.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत की सभी खुली निविदाएं ही प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित की जाती हैं। रू. 20.0 लाख से कम अनुमानित लागत की अन्य सभी खुली निविदाओं के संबंध में नियमित अद्यतनों हेतु कृप्या वेबसाइट www.sjvn.nic.in अथवा www.tenders.gov.in, www.eprocure.gov.in. देखें । अपने और राष्ट्रहित के लिए ऊर्जा की बचत करें

#### टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड कार्यालय: सांतवी मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, झंडेवाला एक्टेंशन, नई दिल्ली-110055 **TATA** संपर्क 91 11 66786229, मो. 91 9250 009963

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, २००२(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002

मांग सूचना

(''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

श्री विजय पाल यादव, निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 25000 1

सर्वहित दस्ट, चेयरमेन व दस्टी श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, जी-10, कृष्णा प्लाजा

. सर्विहित ट्रस्ट, चेयरमेन व ट्रस्टी श्री विजय पाल यादव पिता स्व आर.सी. यादव द्वारा प्रतिनिधित्व निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 250001 सर्विहित ट्रस्ट, ट्रस्टी श्रीमती सुनीता यादव पित श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व

निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 250001 सर्वहित टस्ट, टस्टी श्री नितिन यादव पिता श्री एम.एस. यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, निवासी 145

बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 25000 1 सर्वहित ट्रेस्ट, ट्रस्टी श्रीमती शिखा यादव पति श्री जयदीप सिंह यादव पिता श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 25000 1

सर्विहत ट्रस्ट, ट्रस्टी कु. वर्षा यादव पिता श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 25000 1

सर्विहत ट्रस्ट, ट्रस्टी श्री एम.एस. यादव पिता स्व. श्री आर.सी. यादव द्वारा प्रतिनिधित्व निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 250001

सर्वहित दुस्ट, दुस्टी श्री रमेश चन्द्र यादव पिता हरि सिंह यादव द्वारा प्रतिनिधित्व. निवासी 112

श्रीमती सुनीता यादव, निवासी 145 बी सी लाईन्स, मेरठ, उ.प्र. 25000 1

. **1.** मेसर्स ई एम एम वी इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्रा.लि., मेनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, प्लाट नं. 1000 एम, ग्राम घाट, द्वारका हाईटस के पास, एन एच-58 वेद व्यासपरी, मेरठ, उ.प्र. -250005

 मेसर्स ई एम एम वी इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्रा.लि., डायरेक्टर श्रीमती सुनीता यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, प्लाट नं. 1000 एम, ग्राम घाट, द्वारका हाईट्स के पास, एन एच-58, वेद व्यासपुरी, मेरठ, उ.प्र. -250005

3. रमेश चन्द्र @ रमेशचन्द्र यादव, पिता हरि सिंह यादव, निवासी 126/128, अमिर मोहल्ल पोस्ट ऑफिस वाली गली. गाम नंगलोई, दिल्ली 110041 4. कमला यादव, निवासी के एम नं. 126 / 128, अमिर मोहल्ला, नजफग्राम रोड, नंगलोई, दिल्ली

5. मेसर्स प्रसांदी बिल्डर्स प्रा.लि., डायरेक्टर श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, जी-10 कृष्णा प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ, उ.प्र. 250002

**16.** मेसर्स प्रसादी बिल्डर्स प्रा.लि., डायरेक्टर सुनीता यादव द्वारा प्रतिनिधित्व, जी–10, कृष्ण प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ, उ.प्र. 250002

 मेसर्स प्रसादी बिल्डर्स प्रा.लि., डायरेक्टर श्री राजीव अग्रवाल द्वारा प्रतिनिधित्व, जी-10, कृष् प्लाजा गढ़रोड़ मेरठ उ.प. 250002

18. मेसर्स प्रसादी बिल्डर्स प्रा.लि., डायरेक्टर श्री सुरज यादव पाल द्वारा प्रतिनिधित्व, जी-10

णा प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ, उ.प्र. 250002

19. वी.ए.एम. रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्रा. लि., डायरेक्टर श्री विजय पाल यादव द्वारा प्रतिनिधित्व अपेक्स कॉलेज के सामने. व्यास पुरी, मेरठ, उ.प्र. 250002

20. वी.ए.एम. रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्रा. लि., डायरेक्टर श्रीमती सुनीता यादव द्वारा प्रतिनिधित्व

अपेक्स कॉलेज के सामने, व्यास पुरी, मेरठ, उ.प्र. 250002 पिय महोदय / महोदया

#### 30 नवंबर 2015 को TCFSL की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत गृह अंशदायी ऋण (LAP)

ांतर्गत भावी ब्याज सहित 22 अप्रैल, 2017 को टाटा कैपिटल फाईनॉशियल सर्विसेस लि. (ओगे र TCFSL संबोधित होगा) को रु. 5,05,28,976 / — (रु. पांच करोड पांच लाख अठ्ठाईस हजार न सौ छियत्तर केवल) की राशि देय है। कई स्मरण पत्रों के माध्यम से निवेदन करने के बावजद र्भ आपके खाते के ऊपर देय राशि का आपने भगतान नहीं किया है जो TCFSL की देय राशि का भगतान न करने के कारण आरबीआई के दिशा—निर्देशानुसार 21 जनवरी, 2017 को एनपीए व . 5प में वर्गीकृत हो गया है। मैं एतद्द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम के प्रावधानों के तारतम्य में टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लि के प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त कथित अधिनियम की धार 13 (2) अंतर्गत दि. 24 अप्रैल 2017 को इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर समस्त लागत एव भावीं ब्याज सहित रु. 5,05,28,976 / — (रु. पांच करोड पांच लाख अठ्ठाईस हजार नो सौ छियत्तर केवल) की राशि के भुगतान हेतु नोटीस जारी किया था जिसमें असफल रहने फ TCFSL द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति के उपर भारित प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) में वर्णित किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जाएगा।

#### बंधक संपत्ति का विवरण

यूनिट नं. 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 21, दूसरी मंजिल, सुपर क्षेत्रफल 6600 वर्गफीट, ब्लॉक ए लीज के माध्यम से हस्तांतरित नहीं कर सकते है। दिनांक : 13.05.2017, स्थान : दिल्ली 🌎 कृते : टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड

# 匈) **pnb** Housing inance Limited Ghar Ki Baat CIN NO.: L65922DL1988PLC033856

### **AUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2017 (Reviewed)	Quarter Ended 31.03.2016 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2017 (Audited)	Year Ended 31.03.2016 (Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	1,075.93	785.18	3,907.70	2,697.92
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	241.64	156.53	804.01	503.09
3.	Net Profit for the period (Before Tax, After Exceptional and Extraordinary items)	241.64	156.53	804.01	503.09
4.	Net Profit for the period (after Tax, Exceptional and Extraordinary items)	152.40	102.56	523.73	326.47
5.	Equity Share Capital	165.64	126.92	165.64	126.92
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of previous year			5,411.67	2,018.98
7.	Earnings per Share (of ₹ 10/- each)				
	(a) Basic	9.20	8.08	36.72	27.48
	(b) Diluted (Quarter Figures are not annualised)	9.08	8.08	36.15	27.48

#### NOTES:

Place: New Delhi

The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and the website of the company (www.pnbhousing.com)

CALL: 1800-120-8800 | SMS: 'PNBHFL' TO 56677 |

Date : May 12, 2017 Regd. Office: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K. G. Marg, New Delhi-110001(India)

WE ACCEPT PUBLIC DEPOSITS AT ATTRACTIVE RATES OF INTEREST

For PNB Housing Finance Limited Sanjaya Gupta **Managing Director** DIN: 02939128

Website: www.pnbhousing.com

(₹ in Crores)

दिनांक : मई 12, 2017

स्थान : नई दिल्ली

ललित शर्मा कंपनी सचिव